



Moving Every Mile With A Smile

# संवाद

## Maheshwari Logistics Limited

Coal • Logistics • Paper

January - March 2019  
ISSUE 3

उद्यमेनेव सिध्यन्ति कार्याणी न मनोरथैः । न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

Only with hard work can we get our work done, not just by wishful thinking. Animals never themselves enter into a sleeping lion's mouth.

### स्पर्श



आप सभी के प्यार व स्नेह के साथ प्रस्तुत है संवाद का तीसरा अंक। आपका सहयोग और जोश मुझे उत्साह के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। वापी के साथ साथ और भी सभी जगह से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपनी रुचि दिखाएँ व भाग लें इतना ही सबसे कहना है।

गोवा के मुख्य मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रेरणादायक कहानी लिखी थी।

“मैं गोवा के पार्रा गाँव से हूँ इसलिए हमें पर्रिकर बुलाया जाता है। मेरा गाँव अपने बेहतरीन तरबूजों के लिए जाना जाता है। जब मैं छोटा था तो एक किसान सभी बच्चों के लिए तरबूज खाने की प्रतियोगिता का आयोजन करते थे।

बड़ा होने पर मैं मुंबई पढ़ने चला गया और जब वापस लौटा तो देखा कि सभी तरबूज छोटे आकार के हो गए थे। जो किसान प्रतियोगिता का आयोजन करते थे उनका बेटा अब उस प्रतियोगिता का आयोजन करता था, पर फर्क था। उसके पिताजी हमें अपने सबसे अच्छे तरबूज खाने के लिए देते और उनके बीज एक कटोरे में अपनी अगली फ़सल से लिए इकट्ठे कर लेते, जिस से अगले साल और ज़्यादा अच्छे व बड़े तरबूज की फ़सल होती थी।

जब उनके बेटे ने काम सम्भाला तो उसने सोचा बड़े तरबूज बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे तो उसने प्रतियोगिता के लिए छोटे तरबूज रखे। इस तरह तरबूज हर साल छोटे होते चले गए और सात साल में बेहतरीन तरबूज समाप्त हो गए।

तो हमें सुनिश्चित यह करना है कि हम अपनी अगली पीढ़ी में शिक्षा के ऐसे बीज रोपित करें कि हमें फ़सल मिले खरे सोने की और हर अगली पीढ़ी में वह सोना निखरता चला जाए।

शिक्षित करें कुछ इस तरह,  
पीढ़ी हमारी निखर जाए हर तरह ।  
अपने गुणों को कर सकें गुणा,  
खुशियाँ हो सबके जीवन में दो गुणा ॥

Mukta Maheshwari  
Editor - Samvad

### Testimonial

I have been seeing the growth of MLL since long. The best part about the group is that they are always open to new diversifications and expansions. Recently I came to know that they have also started waste paper sourcing. This is really nice that this group believes in..

“CHANGE IS MUST”

Narendra Parmar  
Ahmedabad

### समन्वय



दोस्तों,  
हर कम्पनी के अपने मिशन, विज़न और वैल्यू स्टेटमेंट होते हैं जो ये बताते हैं कि उस कम्पनी का काम क्या है, कहाँ पहुँचना चाहती है और कैसे पहुँचना चाहती है। क्या आपको पता है अपनी कम्पनी के स्टेटमेंट्स क्या हैं? अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए ...

#### Mission

To deliver excellent and timely services to our customers and to give maximum benefits to our shareholders, as well as our employee and the society.

#### Vision

To achieve success and be a premium company with a clear focus on our values without missing any opportunity.

#### Values

- Dream : Dreaming on big challenges and seeing them through.
- Integrity : Integrity and honesty in our dealings.
- Ethics : In the end success or failure will come down to an ethical decision, one on which those now living will be judged for the generations to come.

मुझे यह कहते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप सभी के साथ से आज अपनी कम्पनी सारे स्टेटमेंट्स के साथ आगे बढ़ती जा रही है। बिलकुल ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी मिशन, विज़न और वैल्यू स्टेटमेंट होने चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, कितने समय में पूरा करना है और कहाँ पहुँचने के बाद पूरा होगा ये सब नियोजित कर के कार्य करना चाहिए।

काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए,  
हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए ।  
यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं,  
जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए ॥

Neeraj Maheshwari  
CEO, Maheshwari Logistics Ltd.

Bestie...  
of the Quarter



Hamsafar Alam  
Bhivandi

#### KEY MARKET DATA

NSE CODE:	MAHESHWARI
Share Price	219.00*
Market Cap	324 Cr
Face Value	10.0
IPO Price	68.0
IPO Date	16 Jan 2017
52W H/L	219.0 / 169.9
Revenue#	874 Cr
EBITDA#	38.7 Cr
PAT#	11.65 Cr

\*March 29, 2019  
#FY 2017-18

## एकाग्रता

हम कोई भी कार्य करें उसे एकाग्रता के साथ करना चाहिए तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नट अपने दोनों हाथों में एक बाँस ले कर रस्सी पर चलता है। लोगों की नज़र नट पर रहती है पर नट की नज़र तो रस्सी पर ही टिकी रहती है और एकाग्रता के साथ वो उस पर संतुलन बना कर चलता है। एकाग्रता के कारण संतुलन बनाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है।

भावार्थ यह है कि यदि हम एकाग्रचित हो कर काम करें तो हमारे लिए किसी भी कार्य को करना सम्भव है।



जगन्नाथ काबरा  
अहमदाबाद

## जीवन पथिक

आया पथिक धरा पर जब से, अनजान था कुछ बोध नहीं  
विकृत जीवन पथ पर चलना, सका न खुद को रोक कहीं  
नवजात शिशु था बोध कहाँ था, रो पड़ता जब लगती भ्रूख  
माँ ममता से दूध पिलाती, प्यार लुटाती उस पर खूब  
बाल्यावस्था शुरू हुई जब, शरारतों ने डेरे डाले  
दीवाली पटाखे ले कर आयी, होली के रंग हैं लाल और काले  
विद्यारंभ की जब उसने, शारदा माँ के आलय तले  
शिक्षा तो पूरी कर ली उसने, पर रहा छात्र जब तक जीवन चले  
कभी सीखता इनसे-उनसे, सीखता रहता सदा हमेशा  
नहीं मिल सका पूर्ण ज्ञान जब, बना रह गया छात्र हमेशा  
यौवन अवस्था मिली सुहानी, बल सुंदरता और जवानी  
देख परिजनों के मन हर्षाए, गठबंध हुआ सहचरी ले आए  
उत्तरदायी हुआ पथिक अब, जीवन के नए अध्याय जुड़ गए  
यौवन अवस्था स्थिर नहीं थी, असर दिख गया इस जीवन में  
वानप्रस्थ जब शुरू हुआ तो, पुष्ट पथिक हुआ शिथिल जीवन में  
जीर्ण देह जब हुआ पथिक का, औषधियों ने पकड़ बना ली  
वैद्यों को भी समझ ना आया, रोगों ने ऐसी जकड़ बना ली  
जीवन चक्र को समझ ना पाया, अंतिम समय जब पथिक का आया।।



पं कैलाश शास्त्री  
वापी

## Congratulations!!!

Arnav Maheshwari, Vapi	(Nursery)
Het Desai, Vapi	(Senior Kg)
Harshika Kabra, Ahmedabad	(Senior Kg)
Navika Maheshwari, Vapi	(Senior Kg)
Vidhi Maheshwari, Vapi	(1st Std)
Khwaish Kabra, Ahmedabad	(3rd Std)
Hetvi Desai, Vapi	(6th Std)
Disha Maheshwari, Vapi	(7th Std)
Raghav Maheshwari, Vapi	(7th Std)



for their good results and best of luck for the upcoming year!!

## खाना खजाना

## गर्मी में कोल्ड ड्रिंक नहीं

### पिएं ये देसी ड्रिंक्स !

इनको बनाना है बहुत ही आसान

कामिनि देसाई  
वापी



गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीने के बजाय नेचुरल चीजों से बने ड्रिंक्स पीने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। इसमें डाले जाने वाले अलग-अलग मसालों से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि सेहत के लिए भी यह फायदेमंद है। इन्हे बर्फ के टुकड़े डालकर भी पी सकते हैं।

**आम का पना :** कच्चे आम का पना गर्मी में लू से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है। इसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। कच्चे आम (कैरी) को छीलकर उबाल लें। इसमें काला नमक, पुदीना, शक्कर डालें।

**मैंगो मिंट लस्सी :** आम और पुदीने से बनी लस्सी गर्मी में आपको फ्रेश रखेगी। इस एनर्जेटिक ड्रिंक को बनाकर तुरंत सर्व करें आम, शक्कर, पुदीना, इलायची पाउडर, नींबू का रस और दही को मिलाकर ब्लेंड कर लें।

**पुदीने का शर्बत :** पुदीने का शर्बत गर्मी में डिहाइड्रेशन और लू से बचाता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखता है। ब्लेंडर में पुदीना, शक्कर या गुड़, शहद, काला नमक, कालीमिर्च और जीरा पाउडर मिलाकर पीस लें। इस पेस्ट की कम मात्रा को पानी के साथ सर्व करें।

**इमली का अमलाना :** गर्मी से बचने के लिए इमली से बने इस राजस्थानी ड्रिंक को पीजिए। लू से राहत पाने का यह कारगर तरीका है। इमली और पानी मिलाकर दो घंटे के लिए रख दें। मिश्रण को छानकर इसमें शक्कर, कालीमिर्च पाउडर, इलायची पाउडर, काला नमक, सादा नमक, बर्फ और पानी डालें।

**एलोवेरा जूस :** यह जूस गर्मी से होने वाली स्किन टैनिंग को दूर करने में मददगार है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। इसे पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है और गर्मी में भी स्किन का ग्लो बरकरार रहता है। एलोवेरा के कांटेदार किनारे हटा दें। इसकी पत्तियों के बीच जमा गूदा निकालें। इसे मिक्सी में डालकर लेमन या ऑरेंज जूस और नमक मिलाकर पीस लें।

**बेल का शर्बत :** गर्मी में इसे अमृत के समान माना गया है। यह डायरिया को दूर करने में मददगार है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और लू से बचाता है। बेल के फल का गूदा निकालकर अच्छी तरह मैश कर दें। इसमें शक्कर, काला नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला मिलाकर ब्लेंड कर लें।

## देखी है मैंने लार्शें चीथड़ों में वीर जवानों की, ओछी हरकत गद्दारों और कायरों की: सचिन त्रिपाठी

साहित्य संगम में होली के उपलक्ष्य में हुआ हास्योत्सव कार्यक्रम

श्री टीचर्स/ गोपीपुरा स्थित साहित्य संगम में होली के उपलक्ष्य में हास्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। साहित्य संगम के आसपास के इलाके में एम्पएमसी ड्रेनेज लाइन का काम चालू है, ऐसी परिस्थिति को दर्शाते हुए फिरोज काफ़ीइया ने कहा कि यहां भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है, खुदा हर जगह है और जहाँ खुदा नहीं है वहाँ कल खुदेगा। उम्मत नमक ने तीसरा शिखर युद्ध किस्स मुँह पर डोहा कर शिखर पर जीत, सैदो, अखिल काब, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, राज ठाकरे और आसाराम बापू का कारण देते, इस पर अपनी कल्पना से लोगों को खूब हंसाया। नटवर पंडव्या ने गुजराती व्यंग रचना 'जहाँगीर ने घंट की प्रस्तुति दी। प्रजा बणी ने शायी के कुछ सालों बाद पति और पत्नी पूरे-पूरे के बारे में क्या कहसुन करते हैं, इस शिखर पर सत्य, गैर सत्य और अखिल



प्रस्तुत की। कवि अमोल अडेकर ने मोहम्मद रफी के गाने 'बाहे कोई मुझे जंगली कले' को अमर केवल सहाय, किशोर कुमार, मुकेश और प्रदीप आदि गायक गाते तो किस तरह गाते, इसकी बेहतरीन फेरी प्रस्तुत की। इन्होंने हास्य के विभिन्न विधाओं से लोगों को हंसाया। कवि सचिन त्रिपाठी ने भी अपने अत्याम से लोगों को हंसाकर किया।

राष्ट्रियों के नाम

किसी भी समझौते का अब मुझको मान नहीं आम आदमी हूँ मुझको राजनीति का ज्ञान नहीं। देखो है मैंने लार्शें चीथड़ों में वीर जवानों की ओछी हरकत गद्दारों और कायरों की। देखो है मैंने सुनी मांगों जो कुछ ब्याही थी किसी के बेटे को कुछ दिन बाद समाई थी।

## होली- आपसी प्रेम एवं एकता का प्रतीक

होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। होली की हर कथा में एक समानता है कि उसमें 'असत्य पर सत्य की विजय' और 'दुराचार पर सदाचार की विजय' का उत्सव मनाने की बात कही गयी है।

इस प्रकार होली मुख्यतः आनंदोल्लास तथा भाईचारे का त्योहार है।

'होलिका' का दहन समाज की समस्त बुराइयों का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता व दुश्मनी को भूलकर एक-दूसरे के गले मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं।

राग-रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है।

किसी कवि ने होली के सम्बंध में कहा है:

नफरतो के जल जाएँ सब अंबार होली में,

गिर जाए मतभेद की हर दीवार होली में।

बिछुड़ गए जो बरसों से प्राण से अधिक प्यारे,

गले मिलने आ जाएँ वे इस बार होली में।।



आप अपने हुनर को इस पते पर भेज सकते हैं, या priyaupadhyaym1pl@gmail.com पर मेल कीजिए।

Priyanka Dubey, MLL House, Shed No A2-3/2, Opp. UPL, 1st Phase, GIDC, VAPI - 396 195. Mobile No. 98243 02806

समस्त योगासनो में वज्रासन ही एक ऐसा आसान है जिसे खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। इस योग आसन का नाम इस आसन को करते समय बने आकार से निकलता है, हीरे का आकार या फिर वज्र का आकार, इसे वज्रासन का नाम देता है। वज्रासन में बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं।



**वज्रासन कैसे करे :** घुटनों के बल खड़े हो जाएँ, पंजो को जमीन पर रखें पैरों की उँगलियाँ बाहर की ओर, पैरों के अंगूठे एक दूसरे को छूते हुए। पुट्टों को एड़ियों पर रखते हुए दोनों एड़ियों के बीच बनी जगह में बैठे। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एक सीधी रेखा में रखें, हथेलियाँ जाँघों पर, आकाश की ओर खुली हुई। शुरुआत में वज्रासन को करने पर पैरों के स्नायुओं में थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, पर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इसे एकदम सहजता से किया जा सकता है। तीन से दस मिनट अभ्यास करने के बाद धीरे से अपने पैर खोल कर लम्बे कर लें व सामान्य स्थिति में आ जाएँ।

**वज्रासन के लाभ :** पेट के नीचे के हिस्से में रक्त संचार बढ़ता है इसलिए भोजन के पश्चात् वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। अधिक वायु दोष या दर्द में आराम मिलता है। पैर और जाँघों की नसें मजबूत होती हैं। घुटने और एड़ी के जोड़ लचीले होते हैं गठिया वात रोग की सम्भावना कम होती है। वज्रासन में रीढ़ कम प्रयास से सीधी रहती है। इस आसान में प्राणायाम करना लाभकारी है।

**सावधानियाँ :** पैर के पंजो, एड़ियों या घुटनों में समस्या होने पर, स्लिप डिस्क की स्थिति में या जिन्हे चलने फिरने में दिक्कत है वे इस आसन को बहुत सावधानी के साथ करें।


## The Sun Is White, Not Yellow



The exact colour of Sun is white. The Sun looks yellow to us because our atmosphere scatters light from the Sun, so the perceived colour of the Sun changes. This same scattering effect is why the sky looks blue in the day and black at night.

The Earth's atmosphere scatters light in the blue and violet wavelength range, so the remaining wavelengths of light appear yellow, and so the sky also appears yellow when the Sun is disappearing over the horizon.

As the Sun is setting, more of the shorter wavelength blue is scattered because of the decreased angle of the Sun relative to us. Thus the light has to pass through more atmosphere to get to us. This increased diffusion results in less of the blue wavelength being visible to us and so the Sun and sky appear red.



Collected By  
Yash Maheshwari  
Ghodbunder

KEY CLIENTS



## खेल खेल में

### SUDOKU

5	3	6	8	2	7	9	4	1
1	7	2	9	6	4	3	5	8
8	9	4	1	5	3	2	6	7
7	1	5	3	4	9	8	2	6
6	4	3	7	8	2	1	9	5
9	2	8	5	1	6	7	3	4
4	8	1	2	9	5	6	7	3
3	6	9	4	7	1	5	8	2
2	5	7	6	3	8	4	1	9

### RIDDLES

- Now the clock shows 3:35 pm. If the clock is rotated 90 degrees counter clockwise then what will be the time?
- Use all the numbers and mathematical symbols given below only once and form the correct equation.  
2345 + =
- Two fathers and two sons go fishing. Each of them catches one fish. So why do they bring home only three fishes?
- I have keys but no locks. I have space but no room. You can enter, but can't go inside. What am I?

Sea Word Search

w	f	b	s	w
e	i	r	e	a
t	s	e	a	t
w	h	a	l	e
b	l	u	e	r

Last edition Sudoku Completed by  
Yogesh Poddar  
Pinakin Pandya  
& Jarnail Singh

पिछले अंक में प्रकाशित रिडल का सही जवाब 27 या 40 है।  
जिन्होंने भी सही जवाब दिए हैं उनमें से लकी ड्रॉ के द्वारा निकाले गए पाँच नाम हैं  
Mohammad Azharuddin, Nirupa Raiyani, Pushpendra Singh Yadav,  
Pradeep Verma, Abhishek Tiwari

रिडल्स के सही जवाब आपको 5th May तक मो.नं : 98243 02806 पर नाम के साथ मेसेज करना है।  
जिनकेभी जवाब सही होंगे, उनमें से लकी ड्रॉ के द्वारा 5 नाम चुन कर संवाद के अगले अंक में उत्तर के साथ प्रकाशित किए जाएंगे।

# GLIMPSE OF EVENTS



Women's Day Celebration at MLL House, Vapi



Dental Camp at Ambethi Factory, Vapi



Holi Celebration at MLL House, Vapi



Holi Celebration at MLL, Gandhidham



**Winner of SKOCH AWARD 2019**

**शुभेच्छा**



सूरज रोशनी लेकर है आया, और पंछियों ने गाना गाया,  
फूलोंने हंसकर है बोला, मुबारक हो आपका जन्मदिन आया ।।

**आप सभी को पूरे MLL परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाईयाँ ।**

**Admin Division**

SATYANARAYAN KABRA	AHMEDABAD	2ND APRIL
MUKTA MAHESHWARI	VAPI	30TH APRIL
DINESH MAHESHWARI	VAPI	4TH MAY
NILESH MEHTA	VAPI	13TH MAY
AMIT MAHESHWARI	VAPI	2ND MAY
KAILASH NARYAN MAHESHWARI	VAPI	28TH MAY
DARPAN VASHI	VAPI	31ST MAY
DEEPAK MAHESHWARI	JAMNAGAR	7TH JUNE
VIKAL MAHESHWARI	VAPI	16TH JUNE
JAGDISH PATEL	VAPI	25TH JUNE

**LOGISTICS DIVISION**

SAMUNDAR SINGH	JAITARAN	1ST APRIL
RAKESH VISHVKARMA	JAMNAGAR	1ST APRIL
MD. MERAJ	JAMNAGAR	1ST APRIL
RAMKISHOR PARDE	VAPI	1ST APRIL
DURGESH OMER	NIMBAHERA	2ND APRIL
FANINDRA JHA	VAPI	5TH APRIL
VIJAY KUMAR SHUKLA	SURAT	5TH APRIL
MORESHWAR MALI	VAPI	5TH APRIL
SHIVKAILASH BACHLE	VAPI	5TH APRIL
KANHAIYA LAL BAVRI	JAMNAGAR	7TH APRIL
GADH GULAMBHAI	JAMNAGAR	7TH APRIL
MITHUNKUMAR BHAGAT	VAPI	10TH APRIL
JAGTAR SINGH	MANGLORE	15TH APRIL
ISHWAR SINGH	JAMNAGAR	16TH APRIL
VINOD NAGLE	VAPI	19TH APRIL
PRITHVI SINGH	JAMNAGAR	20TH APRIL
MATELU PRASAD	VAPI	20TH APRIL
ARJUN JOSHI	VAPI	20TH APRIL
PINAKIN PANDYA	AHMEDABAD	30TH APRIL
HABIB KHAN	JAMNAGAR	1ST MAY
KHAMAN SINGH	BHAVNAGAR	1ST MAY
SUNIL DESHMUKH	VAPI	3RD MAY
OMPRAKASH YADAV	VAPI	5TH MAY
RITESH BADODE	VAPI	6TH MAY
KUMAR BHAJANTRI	MANGLORE	15TH MAY
HARDIK PATEL	VAPI	18TH MAY
BIVASH KUMAR	JAMNAGAR	19TH MAY
MAHENDAR SINGHG	ANDHIDHAM	20TH MAY
SAFIYA MAJIDBHAI	JAMNAGAR	22ND MAY
ANILKUMAR P M	VAPI	24TH MAY
MAHESH CHANDRA	JAMNAGAR	25TH MAY
SURENDRA YADAV	VAPI	27TH MAY

**RAHUL UIKEY**

VEERAM SINGHJ	VAPI	30TH MAY
SHOBB SINGH	AMNAGAR	30TH MAY
AJAMAL RABARI	JAMNAGAR	1ST JUNE
MUKESH PARMAR	AHMEDABAD	1ST JUNE
SURENDR DESHMUKH	VAPI	1ST JUNE
SHIVAM SAVITA	VAPI	3RD JUNE
GULABESH PADVI	VAPI	4TH JUNE
PREM SHANKAR VARMA	VAPI	4TH JUNE
BHAMINI MANIAR	VAPI	6TH JUNE
SHANTILAL	VAPI	7TH JUNE
SURESH CHAND	JAMNAGAR	7TH JUNE
SANDEEP YADAV	JAMNAGAR	7TH JUNE
AAKASH BHALAVI	VAPI	10TH JUNE
VIKKI DHURVEY	VAPI	10TH JUNE
GOPAL LAL GADRI	VAPI	13TH JUNE
HORILAL KASHYAP	VAPI	15TH JUNE
SONALI TAPARIA	JAMNAGAR	15TH JUNE
MAHANTESH GOUDAR	SURAT	16TH JUNE
SHARANAPPA NARI	VAPI	17TH JUNE
NAGLE LAXMAN	VAPI	20TH JUNE
KISHAN SINGH	MANGLORE	20TH JUNE
SATNAM SINGH	MANGLORE	20TH JUNE
RAJNEESH KUMAR	VAPI	25TH JUNE
KAMLESH UIKEY	MANGLORE	26TH JUNE

**PAPER DIVISION**

UJJVAL PATEL	VAPI	2ND APRIL
DHARMENDRA YADAV	VAPI	5TH APRIL
MOH.MOMIN	VAPI	5TH APRIL
SANTOSH KOKATE	VAPI	6TH APRIL
MANISH PATEL	VAPI	12TH APRIL
VINOD VERMA	VAPI	12TH APRIL
DHARMENDRA DUBEY	VAPI	28TH APRIL
DEVENDRA RAVAT	VAPI	1ST MAY
SACHIN SINGH	VAPI	1ST MAY
BABU AHIR	VAPI	2ND MAY
SUNILKUMAR	VAPI	5TH MAY
ANIL OZA	VAPI	7TH MAY
TAPAN DAS	VAPI	14TH MAY
ANIL MISHRA	VAPI-1	5TH MAY
PANKAJ BHAKRE	VAPI	22ND MAY
JATINKUMAR PARMAR	VAPI	29TH MAY
BHAVESH PATEL	VAPI	31ST MAY
AMIT BHOYA	VAPI	1ST JUNE

**VAPI**

AMNAGAR	30TH MAY
JAMNAGAR	30TH MAY
AHMEDABAD	1ST JUNE
VAPI	1ST JUNE
VAPI	1ST JUNE
VAPI	3RD JUNE
VAPI	4TH JUNE
VAPI	4TH JUNE
VAPI	6TH JUNE
VAPI	7TH JUNE
JAMNAGAR	7TH JUNE
JAMNAGAR	7TH JUNE
VAPI	10TH JUNE
VAPI	10TH JUNE
VAPI	13TH JUNE
VAPI	15TH JUNE
JAMNAGAR	15TH JUNE
SURAT	16TH JUNE
VAPI	17TH JUNE
MANGLORE	20TH JUNE
MANGLORE	20TH JUNE
VAPI	20TH JUNE
JAMNAGAR	25TH JUNE
MANGLORE	26TH JUNE
VAPI	26TH JUNE
VAPI	28TH JUNE

**BHARTIBEN PATEL**

DEEPAK PATEL	VAPI	1ST JUNE
GANESH PATEL	VAPI	1ST JUNE
JAYANTI PATEL	VAPI	1ST JUNE
JIGNESH HALPATI	VAPI	1ST JUNE
KAMARIBEN AHIR	VAPI	1ST JUNE
KESHAV PATEL	VAPI	1ST JUNE
MITESH PATEL	VAPI	1ST JUNE
NITIN PATEL	VAPI	1ST JUNE
PANKAJ PATEL	VAPI	1ST JUNE
NILESH PATEL	VAPI	1ST JUNE
NARENDRA PATIL	VAPI	1ST JUNE
SANDIP PATEL	VAPI	1ST JUNE
SHAILESH K. PATEL	VAPI	1ST JUNE
SHAILESH M. PATEL	VAPI	1ST JUNE
VASANT PATEL	VAPI	1ST JUNE
YOGESH PATEL	VAPI	1ST JUNE
DHIRU PATEL	VAPI	2ND JUNE
JAYESH PATEL	VAPI	2ND JUNE
HAREN PATEL	VAPI	3RD JUNE
GULSHAN TYAGI	VAPI	10TH JUNE
DEVID YADAV	VAPI	15TH JUNE
JARNAIL SINGH	VAPI	15TH JUNE
MANOJKUMAR RAMGOPAL	VAPI	15TH JUNE
PRADEEP YADAV	VAPI	15TH JUNE
USHA SHUKLA	VAPI	15TH JUNE
DIPAK AHIR	VAPI	17TH JUNE
ROSHAN PATEL	VAPI	20TH JUNE
DHARMENDRA KUMAR	VAPI	25TH JUNE
NIMESH PATEL	VAPI	25TH JUNE
SHASHI BHUSHAN MISHRA	VAPI	25TH JUNE
RANJIT HALPATI	VAPI	26TH JUNE
SHIVDAYAL YADAV	VAPI	28TH JUNE
SANJAY KUMAR PILGAR	VAPI	29TH JUNE

**WASTE DIVISION**

SHAKIB ANSARI	VAPI	23TH APRIL
MOHAMMAD YUSUF	VAPI	12TH MAY
PUSHPENDRA SINGH YADAV	BOISAR	27TH MAY
MOHD KUTUBUDDIN SHAIKH	FOUNTAIN	15TH MAY
ANSARI SHAHID IQBAL	VAPI	18TH MAY

**COAL DIVISION**

SEEMA MAHESHWARI	VAPI	10TH MAY
------------------	------	----------

*No One Can Destroy Iron, But It's Own Rust Can !  
Likewise No One Can Destroy A Person, But His Own Mindset Can.*